

## प्रेस नोट

दिनांक 08.09.2021

सराहनीय कार्य थाना जामों

**“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत 7 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार) के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 07.09.2021 को थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह उर्फ गौरी नि0 ग्राम रनापुर थाना सरेनी जनपद रायबरेली को गोगमऊ नहर पुल के पास से समय करीब 11:45 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । एक अभियुक्त अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया । गिरफ्तार अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के कब्जे से कुल 07 किलो 500 ग्राम अवैध गाजा बरामद हुआ । मोटरसाइकिल टीवीएस विक्टर संख्या यूपी 33 एस 3067 के कागज मांगने पर दिखा न सका । पूछने पर फरार अभियुक्त का नाम सतीश सिंह पुत्र भुल्लर सिंह नि0 मऊ गर्वी थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली बताया । थाना जामों द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह उर्फ गौरी नि0 ग्राम रनापुर थाना सरेनी जनपद रायबरेली ।

### फरार अभियुक्त का नाम व पता-

- सतीश सिंह पुत्र भुल्लर सिंह नि0 मऊ गर्वी थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली ।

### बरामदगी-

- 07 किलो 500 ग्राम अवैध गाजा । (कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार)

### पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 229/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जामों जनपद अमेठी ।
- मोटरसाइकिल टीवीएस विक्टर संख्या यूपी 33 एस 3067 (207 एमवी एक्ट)

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव थाना जामों जनपद अमेठी ।
2. व0उ0नि0 विवेक कुमार सिंह थाना जामों जनपद अमेठी
3. का0 रमाकान्त यादव थाना जामों जनपद अमेठी ।
4. का0 अजय यादव थाना जामों जनपद अमेठी ।
5. का0 वीरेन्द्र कुमार थाना जामों जनपद अमेठी ।